



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26062023-246801  
CG-DL-W-26062023-246801

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2023, शनिवार/ ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1945  
No. 13] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2023, SATURDAY/JYAISHTHA 28—ASHADHA 3, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 19 जून, 2023

का.नि.आ. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार सहायक 'ख' और भंडार सहायक 'क' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार सहायक 'ख' और भंडार सहायक 'क' (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार सहायक 'ख' और भंडार सहायक 'क' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 की अनुसूची में भंडार सहायक 'क' के पद से संबंधित स्तंभ (11) के अधीन "टिप्पण 2: यदि परीक्षा में

उपलब्ध” से आरंभ होने वाले शब्दों और अंक तथा “टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह ‘ग’ कर्मचारियों में से अचयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने केतन मेट्रिक्स के स्तर-1 (18000- 56900 रु.) के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

**टिप्पण 1:** यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।

**टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भंडार सहायक ‘क’ एवं ‘ख’/आरआरएस/सी/पी/01/562/डी(आर एंड डी) तारीख, 19 जून, 2023]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. सं. 57 द्वारा तारीख 15 सितंबर, 2022 में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2023

**S.R.O. 78.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Store Assistant ‘B’ and Store Assistant ‘A’ (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Store Assistant ‘B’ and Store Assistant ‘A’ (Group ‘C’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Store Assistant ‘B’ and Store Assistant ‘A’ (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, under column (11), for the post relating to Store Assistant ‘A’, for the portion beginning with the words and number “Note 2: If more such employees” and ending with the words “Note : Where Juniors, who have”, the following shall be substituted, namely:-

“(ii) five per cent. by promotion on the basis of non-selection basis from amongst Group ‘C’ employees who have rendered three years regular service in the posts in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and possess 12th class pass from a recognised Board.

**Note 1:** If more of such employees than the available numbers of vacancies are qualify in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

**Note 2:** Where Juniors, who have”,

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant ‘A’ & ‘B’/RRs/C/P/01/562/D(R&D) dated 19 June, 2023]

HARSHA RANI, Under Secy.

**Note:**-The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 Vide number S.R.O. 57, dated the 15th September, 2022.